



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 7 अप्रैल, 2025

चैत्र 17, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग

संख्या 1938/89-1003(099)-1-2022-व्या-शि० और कौ०वि०-2024

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

प०आ०-79

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित शिक्षा अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 24 की उपधारा (1), (4) और (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 55/2018/4556/89-व्या०शि०एवं कौ०वि०-2017-45(टी)-83, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किये जाने हेतु विलोपित हों, राज्यपाल-

(क) इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षता परिषद् की स्थापना करते हैं जिसे "उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षता परिषद्" कहा जायेगा।

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षता परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते हैं:-

उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षता परिषद्

क- माननीय मंत्री, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति। अध्यक्ष

ख-प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष

ग-पब्लिक सेक्टर स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधि-

1-राज्य शिक्षता परामर्शदाता एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
2- निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	सदस्य
4-श्रम आयुक्त, कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5-निदेशक, उद्योग बंधु, पिकप भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6-प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी संघ लिमिटेड, 9ए राणाप्रताप मार्ग लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7-प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	सदस्य

घ-प्राइवेट सेक्टर के स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधि-

1-महाप्रबंधक, टाटा मोटर्स, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, लखनऊ	सदस्य
2-महाप्रबंधक, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	सदस्य
3-क्षेत्रीय निदेशक, पी0एच0डी0 चैंबर ऑफ कॉमर्स	सदस्य
4-अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ	सदस्य
5-भारतीय श्रम संगठन द्वारा नाम निर्दिष्ट	सदस्य
6-निदेशक, सी0आई0आई0, गोमती नगर	सदस्य
7-राज्य प्रमुख फिक्की, यू0पी0	सदस्य
8-महासचिव, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी, गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य
9-उपाध्यक्ष, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नवाचार, नैसकॉम	सदस्य

ङ-केंद्र सरकार के प्रतिनिधि-

1-निदेशक, शिक्षता एवं प्रशिक्षण परिषद, कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
2-क्षेत्रीय निदेशक, आर0डी0एस0डी0ई0, कानपुर, यू0पी0	सदस्य
3-राज्य सहभागिता अधिकारी, एन0एस0डी0सी0	सदस्य

च-राज्य सरकार के प्रतिनिधि-

1-मिशन निदेशक, यू0पी0एस0डी0एम0, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
2-कार्यकारी निदेशक, एस0सी0वी0टी0, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
3-प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4-निदेशक, नियोजन विभाग, यू0पी0	सदस्य
5-सी0ई0ओ0, इन्वेस्ट, यू0पी0	सदस्य
6-सी0ई0ओ0, यू0पी0एस0आई0डी0ए0	सदस्य
7-सी0ई0ओ0, यू0पी0आई0डी0ए0	सदस्य
8-निदेशक, उच्च शिक्षा, लखनऊ, यू0पी0	सदस्य
9-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, लखनऊ, यू0पी0	सदस्य
10-अपर निदेशक (प्रशिक्षु/शिशुक्षु), प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

11-संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षु/शिशुशिक्ष), लखनऊ मण्डल

सदस्य

छ-उद्योग, श्रम और तकनीकी शिक्षा से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति-

1. निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश

सदस्य

2. श्रम आयुक्त, कानपुर, उत्तर प्रदेश

सदस्य

3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

सदस्य

ज-राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद या बोर्ड का प्रतिनिधि-

1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

सदस्य

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद् (जिसे आगे परिषद् कहा गया है) के सदस्यों और की पदावधि, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और उनके मध्य रिक्तियों को भरे जाने की रीति निम्नानुसार है:-

(1) पदावधि-

(एक) परिषद् तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जायेगी और तत्पश्चात प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर पुनः गठित की जायेगी। इसमें नियुक्त समस्त सदस्य तदनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे:

परन्तु परिषद् का कोई सदस्य पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है;

(दो) जहां कोई व्यक्ति पदाभिधान से परिषद् का सदस्य चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है वहां वह सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह उस पद या नियुक्ति को धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(2) सदस्यता की समाप्ति-

(एक) परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वह पदत्याग कर देता है, विकृत चित्त का हो जाता है, दिवालिया, घोषित कर दिया जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त दाण्डिक अपराध का दोषी पाया जाता है;

(दो) परिषद् के किसी सदस्य का पद, उस दिनांक से जिस दिनांक को उसका पदत्याग स्वीकार किया जाता है या त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, रिक्त हो जायेगा।

(3) रिक्तियों का भरा जाना-

(एक) उप-खण्ड (2) के मद (एक) में उल्लिखित कारणों से परिषद् की सदस्यता में हुई कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी;

(दो) कोई आकस्मिक रिक्ति भरी जाने के लिये नियुक्त सदस्य तब तक उस सदस्य, जिसका स्थान वह लेगा, के रूप में पद धारण करेगा, जब तक उक्त सदस्य, यदि रिक्ति न होती तो पद धारण हेतु हकदार होता।

(4) बैठक का समय व स्थान-

परिषद्, यथा आवश्यक बहुधा और वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर बैठक करेगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) बैठक हेतु सूचना-

सचिव, परिषद् की बैठक हेतु प्रत्येक सदस्य को अन्यून पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देगा किन्तु आपात बैठक आयोजित किये जाने हेतु अपेक्षाकृत लघु सूचना प्रदान की जा सकती है।

(6) परिषद् की गणपूर्ति-

परिषद् की किसी बैठक के लिए, परिषद् के सदस्यों की एक तिहाई संख्या से गणपूर्ति सृजित होगी।

(7) बहुमत द्वारा विनिश्चय—

(एक) परिषद् द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले समस्त प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार होंगे;

(दो) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा। यदि मतों में समानता हो तो अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(8) परिचालन द्वारा विनिश्चय—

अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, परिषद् की बैठक आयोजित करने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से पत्रजातों के संचालन द्वारा कार्य के किसी मद पर सदस्यों की राय प्राप्त कर सकता है और ऐसे मद का विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जायेगा।

(9) परिषद् की कार्यवाहियां—

(एक) परिषद् की समस्त कार्यवाहियों की प्रतियाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सचिव, राज्य परिषद् को प्रदान की जायेंगी। उक्त राज्य परिषद् द्वारा उन पर अभिव्यक्त किये गये किन्हीं विचारों या दिये गये सुझावों पर परिषद् द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जायेगा;

(दो) अन्य समस्त मामलों में, परिषद् ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसा कि वह अवधारित करे।

(10) सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति—

परिषद् किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में परामर्श देने या सहायता करने के लिए अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। तथापि इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति, परिषद् के समक्ष आने वाले किसी प्रश्न पर मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(11) परिषद् की समितियाँ—

(एक) परिषद् के पास अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता करने के लिये ऐसी स्थायी या विशेष समितियाँ, जैसा कि उसके द्वारा समीचीन समझा जाय, गठित करने की शक्ति होगी;

(दो) स्थायी अथवा विशेष समितियों के कृत्यों का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा; और

(तीन) स्थायी अथवा विशेष समितियों की संरचना का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(12) शुल्क एवं सदस्यों के भत्ते—

अध्यक्ष और राज्य सरकार के प्रतिनिधि परिषद् या उसकी समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार से सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्तों का आहरण करेंगे। परिषद् के समस्त अन्य सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा परिषद् या उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए सुसंगत नियमावली के अनुसार समूह 'क' के सरकारी अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

(13) कार्यों और कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन—

(एक) परिषद् के समस्त कार्यों और कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन, अध्यक्ष या अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश परिषद् के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

आज्ञा से,

डा० हरिओम,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1938/LXXXIX-1003(099)-1-2022-Vya-Shi.and Kau, Vi-2024, Dated April 7, 2025 :

No. 1938/LXXXIX-1003(099)-1-2022-Vya-Shi.and Kau, Vi-2024

Dated Lucknow, April 7, 2025

In exercise of the powers under sub-sections (1), (4) and (5) of section 24 of the Apprentices Act, 1961 (Act no. 52 of 1961) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 and in supersession of Government notification no. 55/2018/4556-89-Vya-Shi.and Kau.Vi.Vi-2017-45(T)83 dated April 23, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to:-

(a) establish the State Apprenticeship Council in Uttar Pradesh, to be known as the "Uttar Pradesh State Apprenticeship Council", for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*;

(b) to appoint the following persons as the Chairman, the Vice-Chairman and the members of the Uttar Pradesh State Apprenticeship Council :-

UTTAR PRADESH STATE APPRENTICESHIP COUNCIL

- | | | |
|-----------|--|----------------|
| A. | Hon'ble Minister, Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship, Uttar Pradesh or any person nominated by State Government. | Chairman |
| B. | Principal Secretary/Secretary, Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship, Uttar Pradesh. | Vice- Chairman |
| C. | Representatives of employers in establishments in the public sector- | |
| | 1. State Apprenticeship Advisor and Director, Training & Employment Uttar Pradesh, Lucknow. | Member |
| | 2. Director of Industries, Kanpur, Uttar Pradesh | Member |
| | 3. Director Printing and Stationary, Uttar Pradesh, Allahabad | Member |
| | 4. Labour Commissioner, Kanpur, Uttar Pradesh | Member |
| | 5. Director, Udyog Bandhu, PICUP Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh | Member |
| | 6. Managing Director, U.P. Sugar Cooperative Federation Ltd., 9A Rana Pratap Marg, Lucknow, Uttar Pradesh. | Member |
| | 7. Managing Director, Hindustan Aeronautics Limited | Member |
| D. | Representatives of employers in establishments in the private sector- | |
| | 1. General Manager, TATA Motors, Chinhat Industrial Area, Lucknow | Member |
| | 2. General Manager, Maruti Suzuki India Limited | Member |
| | 3. Regional Director PHD Chamber of Commerce | Member |
| | 4. Chairman, Indian Industries Associations | Member |
| | 5. Member nominated by Indian Labour Organisation | Member |
| | 6. Director, CII, Gomti Nagar | Member |
| | 7. State Head FICCI, U.P. | Member |
| | 8. Secretary General, Associate Chamber of Commerce & Industry of U.P., Gomti Nagar, Lucknow | Member |
| | 9. Vice President, Technology & Social Innovation, NASSCOM | Member |
| E. | Representatives of the Central Government- | |
| | 1. Director, Board of Apprenticeship Training, Kanpur, U.P. | Member |
| | 2. Regional Director, RDSDE, Kanpur, U.P. | Member |
| | 3. State Engagement Officer, NSDC | Member |
| F. | Representatives of the State Government- | |
| | 1. Mission Director, UPSDM Aliganj, Lucknow | Member |

2. Executive Director, SCVT Aliganj, Lucknow	Member
3. Managing Director, UPPCL, Lucknow, Uttar Pradesh	Member
4. Director, Planning Department, U.P.	Member
5. CEO, Invest U.P.	Member
6. CEO, UPSIDA	Member
7. CEO, UPIDA	Member
8. Director, Higher Education, Lucknow, U.P.	Member
9. Director, Secondary Education, Lucknow, U.P.	Member
10. Additional Director (Training/Apprentices), Directorate of Training & Employment, Uttar Pradesh, Lucknow	Member
11. Joint Director (Training/Apprentices), Lucknow, Division	Member

G. Persons having special knowledge and experience of matters relating to industry, labour and technical education:-

1. Director of Industries, Kanpur, Uttar Pradesh	Member
2. Labour Commissioner, Kanpur, Uttar Pradesh	Member
3. Director of Technical Education, Uttar Pradesh	Member

H. Representative of the Board or of the State Council of Technical Education-

Director of Technical Education, Uttar Pradesh	Member
--	--------

(c) to determine the term of office of, the procedure to be followed in the discharge of their functions by, and the manner of filling vacancies among, the members of the Uttar Pradesh State Apprenticeship Council (hereinafter referred to as the "Council") as follows:-

(1) Term of Office-

(i) The Council shall be constituted for a period of three years and thereafter it shall be reconstituted at the end of every three years. All the members appointed to it shall accordingly hold office for a period of three years:

Provided that a member of the Council shall, notwithstanding the expiry of the aforesaid period of three years, continue to hold office until his successor is appointed;

(ii) Where a person is chosen as a member of the Council by virtue of the office or appointment he holds, he shall cease to be a member if he ceases to hold that office or appointment

(2) Cessation of membership-

(i) A member of the Council shall cease to be a member if he dies, resigns, becomes of unsound mind, is declared insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude;

(ii) The office of a member of the Council shall fall vacant from the date on which resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date receipt of letter of resignation, whichever is earlier.

(3) Filling of vacancies-

(i) Any vacancy in the membership of the Council caused by reasons mentioned in item (a) of sub-clause (2) above, shall be filled by the State Government.

(ii) A member appointed to fill a casual vacancy shall hold office for so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

(4) Time and place of meeting-

The Council shall meet as often as may be necessary and at least once a year on such date, time and place as may be determined by the Chairman.

(5) Notice for meeting-

The Secretary shall give a notice of not less than fifteen days for meeting of the Council to each member but a shorter notice may be given for holding an emergent meeting

(6) Quorum for the Council-

One-third of the number of members of the Council shall constitute the quorum for any meeting of the Council.

(7) Decision by majority-

(i) All questions to be decided by the Council shall be in accordance with the opinion of the majority of the members present and voting;

(ii) Each member shall have one vote. If there is equality of votes, the Chairman shall have and exercise the casting vote.

(8) Decision by circulation-

The Chairman may, in special circumstances, instead of convening a meeting of the Council, obtain the opinion of the members on any item of business individually by circulation of papers and such item shall be decided in accordance with the opinion of the majority.

(9) Proceeding of the Council-

(i) Copies of all proceedings of the Council shall be furnished to the Secretary of the State Council for Vocational Training. Any views expressed or suggestions made thereon by the said State Council shall be duly considered by the Council ;

(ii) In all other matters, the Council shall follow such procedure as it may determine.

(10) Power to co-opt members-

The Council may, at any time invite, any person to attend its meetings to give advice or assist in any matter. The person so invited shall, however, not be entitled to vote on any question coming before the Council.

(11) Committees of Council-

(i) The Council shall have the power to appoint such Standing or Special Committees for assisting it in the discharge of its functions as may be considered expedient by it;

(ii) The function of the Standing or Special Committees shall be determined by the State Government, and

(iii) The composition of the Standing or Special Committees shall be determined by the State Government.

(12) Fees and allowances to members-

The Chairman and the representatives of the State Government will draw travelling and daily allowances for attending the meeting of the Council or of its Committees from the State Government in accordance with the rules of the Government. All other members of the Council will be paid travelling and daily allowances by the State Government for attending the meetings of the Council or of its Committees at the rates admissible to a Government Officer of Group 'A' in accordance with the relevant rules.

(13) Authentication of acts and proceedings-

(i) All acts and proceedings of the Council shall be authenticated by the Chairman, or with the approval of the Chairman, by the Principal Secretary/Secretary, Vocational Education and Skill Development and Entrepreneurship Department, Uttar Pradesh.

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Vocational Education and Skill Development and Entrepreneurship Department, Uttar Pradesh shall carry out the decisions of the Council.

By order,
DR. HARI OM,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 29 राजपत्र-2025-(95)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास-2025-(96)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।